



भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला Physical Research Laboratory

(भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग की यूनिट A Unit Of Dept. Of Space, Govt. Of India)

नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009 भारत Navrangpura, Ahmedabad - 380 009 India

(विज्ञापन सं. 01/2019)
(Advt. No. 01/2019)

दिनांक: 10/03/2019
Date: 10/03/2019

वॉक-इन कौशल परीक्षा Walk-In Skill Test

भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की यूनिट पी.आर.एल. एक प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्था है जिसमें युवा, उद्यमी और ऊर्जावान प्रत्याशियों हेतु निम्नानुसार कंप्यूटर ऑपरेटर प्रशिक्षु (एक वर्ष के लिए 3 प्रशिक्षु) कार्यक्रम की घोषणा की जाती है:-

PRL, a premier Scientific and Research Institute announces for young, energetic and dynamic candidates a programme for **Computer Operator's Trainees (3 Trainees for ONE YEAR)** as detailed below: -

शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में बीसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में बी.एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान)। उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रम से डिग्री प्राप्त की है।

Educational Qualification: BCA First Class as declared by University / recognized Institute **OR** B.Sc. (Information Technology or Computer Science) First Class as declared by University / recognized Institute. Preference will be given to candidates who have pursued the above degree as regular academic course.

स्टाइपेंड Stipend: 16000 रुपये प्रति माह Rs.16000/- per month.

आयु सीमा Age limit: 28/02/2019 को अधिकतम 22 वर्ष; भारत सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी।
Maximum 22 years as on 28/02/2019; relaxation as per GOI rules.

दिनांक 14/03/2019 को वॉक-इन कौशल परीक्षा होगा। There will be Walk-In Skill Test on 14/03/2019.

इच्छुक उम्मीदवार भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, नवरंगपुरा, अहमदाबाद के मुख्य द्वार पर रिपोर्ट करें और सुबह 09.30 से 11.30 बजे के बीच पंजीकरण करवा लें। सुबह 11.30 बजे के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को वॉक-इन कौशल परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। उम्मीदवारों की पात्रता की सरसरी तौर पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग लेने दिया जाएगा। Interested candidates are required to report at Main Gate, Physical Research Laboratory, Navrangpura, Ahmedabad and complete registration between 09.30 am to 11.30 am. Candidates reporting after 11.30 am will not be allowed to participate in Walk-In Skill Test. A prima facie scrutiny of candidate's eligibility will be done and only then eligible candidates will be allowed for interview.

वॉक-इन कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले इच्छुक सभी उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट www.prl.res.in (→Opportunities→Job vacancies) से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। आवेदन प्रारूप में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन प्रपत्र को जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित जगह पर फोटो चिपकायें।

All candidates willing to appear for Walk-In Skill Test should compulsorily download application form, from our website: www.prl.res.in (→Opportunities→Job vacancies). The duly filled-in application form along with self attested copies of required documents as mentioned in the application format should be presented for scrutiny. Photograph at earmarked place should be pasted.

जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव (यदि हो), जाति या आवेदन प्रपत्र में दिए किसी भी अन्य जानकारी से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे और जांच के लिए प्रस्तुत करने होंगे।

All the original certificates pertaining to date of birth, education qualification, experience (if any), caste or any other information provided in the application form, be brought and presented for verification.

उपरोक्तानुसार आवेदन प्रारूप/मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की प्रतियां, अंक शीट/विज्ञापित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उपस्थित उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। पी.आर.एल. द्वारा लिया गया निर्णय उम्मीदवारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

Candidate appearing without application format as mentioned above/originals/copies of documents, Marks sheets/ candidates not fulfilling advertised norms shall be summarily rejected. The decision taken by PRL shall be final and binding on the candidates.

उम्मीदवार ध्यान दें कि उपरोक्त पद पूरी तरह से अस्थायी हैं और उम्मीदवारों को प्रयोगशाला में स्थायी करने की कोई संभावना नहीं है। उम्मीदवारों को पी.आर.एल. के नियमित कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जाएगा और उन्हें समाविष्ट करने या नियमित करने के लिए अंतर्निहित या स्पष्ट दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

Candidates may note that the above positions are purely temporary and do not lead to permanent absorption of the candidates in the Laboratory. The candidates will not be treated on par with regular employees of PRL and shall have no right to claim implicitly or explicitly for their absorption or regularization.

अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कोई अंतरिम पत्राचार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार पी.आर.एल. में पहले से समान प्रशिक्षु रहे हैं/या अभी प्रशिक्षु हैं, उन्हें इस साक्षात्कार (वॉक-इन कौशल परीक्षा) में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

Incomplete applications are liable to be rejected. No interim correspondence will be entertained. Candidates, who have already availed/ are availing similar Traineeship at PRL will not be allowed to participate in the Walk-In Skill Test.

साक्षात्कार के लिए चयनित बाहरी उम्मीदवारों (अहमदाबाद के बाहर) को आवेदन प्रारूप में उल्लेख के अनुसार सबसे छोटे मार्ग द्वारा आने-जाने का रेलवे स्लीपर श्रेणी/साधारण बस किराए के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। रेलवे/बस के टिकट की प्रतियां प्रस्तुत करने पर ही किराए का भुगतान किया जाएगा।

Outstation candidates (outside Ahmedabad) who are shortlisted for interview shall be paid Travelling Allowance to and fro Railway Sleeper Class/ Ordinary Bus fare by the shortest route as indicated in the application format. Fare will be paid subject to production of railway /Bus ticket copies only.

पीआरएल के पास घोषित वॉक-इन कौशल परीक्षा को रद्द करने का अधिकार है। सरसरी तौर पर जांचे गए सभी पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार 14/03/2019 को पूरे करने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि, किसी भी अप्रत्याशित कारणवश उसी दिन में साक्षात्कार पूरा नहीं होने पर, अगले दिन अर्थात् 15/03/2019 को उम्मीदवारों को उपस्थित रहना होगा।

PRL reserves the right to cancel the Walk-In Skill Test process as announced. All efforts will be made to complete interviews of the eligible candidates screened-in through prima-facie scrutiny on 14/03/2019. However, if by any unforeseen reason, interviews are not completed on the same day, candidates may have to appear for interview next day i.e. 15/03/2019.

पंजीकरण के लिए आने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/मोबाइल/लैपटॉप/सीडी/पेन ड्राइव/कैमरा आदि लेकर नहीं आएं।

Candidates are advised not to bring any electronic gadgets/mobile/laptop/CDs/pen drive/camera etc while appearing for Registration.

रजिस्ट्रार Registrar